

युक्त और विदेशी वैद्यकीय संगठनों से प्राप्त सहायता में से पूरा करती हैं। विभिन्न निम्नलिखित विस्थापित बस्तियों/शिविरों में खोले गये अस्पतालों/औषधालयों द्वारा रोगियों को उनके घरों पर ही इलाज कराने की सुविधाएं दी जाती हैं। विस्थापितों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त और विश्व संगठन की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से तथा सेन्ट्रल रिलीफ कमिटी (भारत) को सहायता से श्वेत रोग नियंत्रण का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है जिसके अन्तर्गत बस्तियों और शिविरों में रहने वाले सभी निम्नलिखित विस्थापितों को उपचार की सुविधाएं दी जाती हैं।

(THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. DEBIPRASAD CHATTOPADH YAYA I: (a) Although no scientific survey has been conducted, it appears on the basis of data gathered during the visit of BCG Teams to certain settlements that the incidence of TB among the Tibetan Refugees is not higher than the incidence among the general popu-in India.

(b) The concerned State authorities have been requested to extend BCG Vaccination, tuberculosis case-finding and treatment facilities to Tibetan refugees residing in their respective States. The settlements which are situated in those districts where a district TB Centre has been established are looked after by such centres, as a part of their normal activity.

The Government of India have been meeting 50 per cent of the cost of the treatment of Tibetan refugees who are admitted in selected T.B. Sanatoria. Admission is arranged by the Central Relief Committee (India) and the other 50 per cent of the cost is paid by the Committee out of aid received from United Nations High Commissioner for Refugees and Foreign Voluntary Agencies. Domiciliary treatment is also given by the hospitals/ dispensaries set up in the various Tibetan refugee settlements/camps. A comprehensive T.B. Control Programme covering all Tibetan Refugee Settlements and Camps has been initiated with financial

and technical aid from United Nations High Commissioner for Refugees and World Health Organisation and with the assistance of Central Relief Committee (India).]

VISIT OF THE MANAGING DIRECTOR OF IFFCO, GUJARAT TO MEXICO

621. SHRI KALI MUKHERJEE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Managing Director of the Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd., Gujarat visited Mexico in July-August, 1971;

(b) whether it is a fact that the visit was sponsored by M/s. CFI of USA, the consultants in the project for a fertilisers complex to be set up in Gujarat; and

(c) if so, the main purpose of the visit?

THE STATE MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB SHINDE): (a) Yes.

ib) No.

(c) The purposes of the visit were:

(i) to hold discussions regarding supply of Phosphoric Acid, one of the raw materials for the plant,

(ii) to study the storage and loading facilities for Phosphoric Acid and obtain data for similar facilities to be build by IFFCO at Kandla.

दिल्ली में कांग्रेस दल के लिये भूमि का आबंधन

622. श्री डी० के० पटेल :

श्री जगदीश प्रसाद माधुर :

श्री लाल आडवाणी :

श्री मान सिंह वर्मा :

श्री ना० कु० शेखवलकर :

श्री रत्न लाल जैन :

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :